C-29-10-0046

| APPLICATION FORM FOR ASSISTANCE (Healthcare)<br>सहायता हेतू आवेदन प्रारूप (स्वास्थय देखमाल)               |                                                    |                                                                                                                    |                         |                                                                                          |                                |                                    | shika                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| APPLICATION No.: A 10423 10049                                                                            |                                                    |                                                                                                                    |                         | ATION DATE : T                                                                           |                                |                                    | g block of life                            |  |
| NAME of APPLICANT :                                                                                       |                                                    |                                                                                                                    |                         | GE-YEARS STIT                                                                            | वर्ष SEX वि                    | रंग                                |                                            |  |
| अविदक्ष का नाम                                                                                            |                                                    |                                                                                                                    |                         | 65                                                                                       | F                              |                                    |                                            |  |
| FATHER'S/SPOUSE'S N<br>विद्या/कटुम्ब का नाम                                                               | NAME:                                              | TSQ 19 TO PRESENT RESIDENCE ADDR                                                                                   |                         | - controller series                                                                      |                                |                                    |                                            |  |
| Village- Ich                                                                                              | short B                                            | PRESENT RESIDENCE ADDR                                                                                             | 15cl Md                 | - ग्राइस                                                                                 | Alway                          | ×                                  |                                            |  |
| Raigst                                                                                                    | han - 3                                            | 7070                                                                                                               |                         |                                                                                          |                                | preop                              | Postop                                     |  |
| /43/44/                                                                                                   | PI                                                 | RMANENT RESIDENCE ADDR                                                                                             | RESS: PUR               | आवासीय पता                                                                               |                                | 0049                               | Acadon                                     |  |
|                                                                                                           |                                                    | As above                                                                                                           |                         |                                                                                          |                                | 0045                               | 113401                                     |  |
| OCCUPATION: Ho                                                                                            | me mak                                             | en                                                                                                                 |                         |                                                                                          | MARRIED (F                     | देवाहित) / UNMARRIED (             | (अविवाहित)                                 |  |
| कुल वार्षिक अथ                                                                                            | S00.                                               | oor ffamily                                                                                                        | )                       |                                                                                          |                                | of of Income)<br>ग्रह्म संलग्न) NA |                                            |  |
| PAN No. स्थाई खाता संस<br>ARE YOU AN INCOME                                                               | TAX ASSESSEE (                                     | A<br>Tick whichever is applicable):                                                                                |                         | Yes ING                                                                                  | \                              |                                    |                                            |  |
| क्या आप आय कर दाता                                                                                        | है (जो मान्य हो उ                                  | स पर सही का निशान लगाये।                                                                                           |                         | Yes / AG<br>हाँ (नही                                                                     |                                |                                    |                                            |  |
| Sr. No.                                                                                                   |                                                    |                                                                                                                    |                         | ETAILS परिवार 1                                                                          | Gender Gender                  | Relation                           | with Applicant                             |  |
| क्रम संख्या                                                                                               |                                                    | वार के सदस्यों का नाम                                                                                              |                         | म् (वर्ष)                                                                                | लिंग                           | आवेदक                              | आवेदक के साथ सम्बध                         |  |
| 1.                                                                                                        | Isalam                                             |                                                                                                                    | 6                       | 5                                                                                        | M                              | 1-14                               | Husabahd                                   |  |
| 2.                                                                                                        | Rafa Kha                                           |                                                                                                                    |                         | 40                                                                                       | M                              | 5                                  | Soh                                        |  |
| 3.                                                                                                        | BiddoSha                                           |                                                                                                                    | 3                       | 5                                                                                        | F                              | Daug                               | Daug thea It to                            |  |
| ч.                                                                                                        | Sanzun                                             |                                                                                                                    | #                       | 1                                                                                        | M                              | Code                               | indeched Soh                               |  |
|                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                    | +                       |                                                                                          |                                |                                    |                                            |  |
|                                                                                                           |                                                    | BASIS for REQUESTING<br>सहायता के लिये रि                                                                          | ASSISTAN<br>वनति आधार   | CE (Tick whiche                                                                          | ver is applicabl               | e)                                 |                                            |  |
| GPL Card<br>(Attach Card Copy)<br>गरीबी रेखा के नीचे प्रमाण पत्र<br>(प्रमाण पत्र को लाग प्रति संलग्न करे। |                                                    | EWS Certificate<br>(Attach Certificate Copy)<br>अल्प आय वर्ग प्रमाण यत्र<br>(प्रमाण यत्र की स्थय प्रति संलग्न करे। |                         | Ration Card<br>(Atlach Copy)<br>उपभोक्ता कार्ड<br>(प्रमाण पत्र की सामा प्रति संलग्न करे। |                                | 8                                  | Any Other<br>Basis/Proof<br>अन्य कोई साक्य |  |
|                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                    |                         | STING ASSISTA<br>विनती का उर्देश                                                         |                                |                                    |                                            |  |
| Sr. No. Medical Reports/Prescriptions Attached                                                            |                                                    |                                                                                                                    |                         |                                                                                          |                                |                                    |                                            |  |
| क्रम संख्या                                                                                               | अस्पताल/डॉक्टर से जारी की गई प्रतिवंदन सूची संलग्न |                                                                                                                    |                         |                                                                                          |                                |                                    |                                            |  |
| 1 Diagnosts RE - PCIOL                                                                                    |                                                    |                                                                                                                    |                         |                                                                                          |                                |                                    |                                            |  |
|                                                                                                           | IF - SENILE CHIARACT                               |                                                                                                                    |                         |                                                                                          |                                |                                    |                                            |  |
|                                                                                                           | -                                                  | *****                                                                                                              |                         | 147 1415                                                                                 | LITAUS 1                       | Cl.                                |                                            |  |
| on the order of the Obsession                                                                             |                                                    |                                                                                                                    |                         |                                                                                          |                                |                                    |                                            |  |
| a simplery-LE-SICS WITH PINMA                                                                             |                                                    |                                                                                                                    |                         |                                                                                          |                                |                                    |                                            |  |
|                                                                                                           | V                                                  | of amountains.                                                                                                     |                         | 300                                                                                      |                                |                                    |                                            |  |
|                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                    |                         |                                                                                          |                                |                                    |                                            |  |
|                                                                                                           |                                                    | ASSISTANCE BEING AVAIL<br>इस उद्देश्य के हेतू कोई                                                                  | ED for SAN<br>अन्य सहाय | IE "PURPOSE" (<br>ता किसी अन्य स्व                                                       | rom OTHER SC<br>ia से लिया गया | SURCES<br>\$1?                     |                                            |  |
| Sr. No.<br>क्रम संख्या                                                                                    |                                                    | NAME of OTHER SOURCE<br>अन्य स्त्रोत का नाम                                                                        |                         |                                                                                          | AMOUNT of ASSIST.<br>सी गई व   |                                    |                                            |  |
|                                                                                                           | Ntu                                                |                                                                                                                    |                         |                                                                                          |                                |                                    |                                            |  |
|                                                                                                           | WILL                                               |                                                                                                                    |                         |                                                                                          |                                |                                    |                                            |  |
|                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                    |                         | T                                                                                        |                                |                                    |                                            |  |

## DECLARATION by APPLICANT: अपनेपक हारा घोषणा परः

- 1) I hereby confirm that all details in this Form are True to the best of my knowledge. Any false statement will render my Application & ongoing assistance, if any, liable for rejection/cancellution.
- 2) I solemnly confirm that assistance, if received from Koshika Foundation, will be used only for the "purpose", as stated in this Form, for which such assistance
- 3) I hereby confirm that I have not & will not in future, avail of reimbursement, in part or in full, from any other source/employer/insurance company, of the amount for which this assistance is requested.
- 1) में चोचना करता हूँ कि इस प्रारूप में दिये समें विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है। यदि कोई विवरण एवं कथन असत्य प्रणा जाता है ले मेरी सहायता निरस्त की का सकती है।
- 2) मेरे हात जो सहायता तरित "कोशिका फाउन्देशन", से ली का रही है, उसका उपयोग उसी उदेश्य की मूर्ति के लिये किया आयेगा, जो इस प्रारूप में मत गया है।
- में पुष्टि काता है कि जिस सहायता हैं। यह प्रार्थना की गई है, इस गिर का अधिक पा सकत हिस्स किसी अन्य फ्रोटनियोजक बीम कम्पनी में न तो लिया है और न ही पविष्य में लिया

## AGREEMENT by APPLICANT (आनंदर्क द्वारा करार)

- 1) By affixing my signature or thumb impression on this Form, I (Applicant) hereby agree & authorise Koshika Foundation and it's Trustees to use/publish/put-up/reproduce my name, address, photo & details of the "purpose", for which such assistance is requested/granted, through any medium, including but not limited to verbal, print, electronic, for soliciting donations for Koshika Foundation and/or disseminating information about it's activities/achievements. Such use of my photo & details can be made by Koshika Foundation before or after my treatment or fulfilment of the "purpose" for which assistance is being requested.
- 2) I (Applicant) further agree that any such use of my name, address, photo & details of the "purpose", for which such assistance is requested/granted. will not automatically entitle me for receiving or continuing the said assistance. The decision for granting and/or continuing the assistance will rest solely with the Trustees of Koshika Foundation, and their decision is this regard will be final and acceptable to me.
- इस प्रपत्र पर अपने इस्ताशर या अंगठे की छाप लगाकर, में (अरथेदक) अपनी सहमति की पुष्टि करता हूँ एवं "कॉशिका काउंद्रेशन और उसके न्यासीयों " को अधिकृत करता हूँ कि मेरा नाम, पता, फोटो और यो विकाण इस प्रपष्ट में फोपित है, उसे "कोशिका" एवम् न्यामी, छन, माफन/या दूसरे उन्देश्य से जुडी गतिबिधियों ओर उपलब्धियों से लिये किसी थी प्रसार माध्यम में प्रसारित करने के लिए अधिकृत है। मेरे प्रवय का विकरण मेरे इसाब के पहले या बाद में करने के लिए "कोरितका फाउक्सन" व न्यासी अधिकृत है।
- 2) मैं (आर्थरक) इस बात से सहमत हूँ कि मेरा खम, बता, फोटो और विवरण जो कि सहापता के उर्देश्मों से प्राधित है मुझे स्वतः सहायता का हकदार नहीं बनाता। इस सम्बंध में "कांशिका" एवम् उसके न्यासियाँ का निर्णय ऑतम और बाध्यकारी होगाः

APPLICANT'S SIGNATURE OR LEFT THUMB IMPRESSION:

आवेदम के इस्तावर या अंगरे का निकान

## AGREEMENT by HOSPITAL (KHARE DO WOL)

By affixing hereunder, signature of our Authorised Signatory for recommending this case/patient for financial assistance from Koshika Foundation, we (Hospital) hereby affirm & accept following:

1) that we neither are presently nor will in future avail of financial assistance from another NGO or any other source, for the same patient/case, as we are requesting to get from Koshika Foundation, to the extent that such assistance is granted by Koshika Foundation. If the requested assistance is not granted by Koshika Foundation, in part or in full, then the Hospital reserves it's right to make up the shortfall from another NGO or any other source. This confirmation essentially states that the Hospital will not avail any duplicate assistance for the same patient/case from any other NGO or any other source. 2) The assistance from Koshika Foundation is only financial in nature. The choice of the treatment/procedure advised/conducted by the Hospital on the patient, is based on the arrangement between the patient & the Hospital, and is in no way influenced by Koshika Foundation. Hence, the Hospital will assume sole & complete responsibility of the treatment & it's outcome & safety of the patient, and Koshika Foundation will have no role or responsibility in the matter.

हमारे ऑफबुत, हस्ताक्षरी की ओर से मामले/रोगी को "कोशिका फाउन्देशन" से किठिय सहायता हेतु सिफारिश की जाती है, विसे हम (हस्पताल) मिन्न प्रकार से मान्य व स्वीकार करते हैं। मह कि न तो वर्तमान और न ही मियम में वितिय सहायता किसी गैर सरकारी संस्थान या किसी अन्य स्थोत से उक्त रोगी/पामले में लोगे या ले रहे है, जैसे कि हमने "कोशिका फाउन्हेशन" से सिफारिश/विनति उका वो सम्बंध में "कोशिका फाउन्डोशन" द्वारा सदद हेतु कि है। यदि "कोशिका फाउन्डोशन" द्वारा सहापात विनति आंशिक/सकत हेतु मन्तुर नहीं किया जाता है तो अस्पताल किसी अन्य गैर सरकारी संस्था या किसी अन्य सन्तापन से सहायता लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस पृष्टि में स्पष्ट कहा जाता है कि अस्पताल दितीय भरर उका संगी-मामले हेतु किसी गैर सरकारी संस्था या किसी अन्य साधन से नहीं शेगा/शेनी।

2. "कोशिका फाउन्डेशन" से ली गई सहापता केवल विविध प्रकृति को है। रोगी पर इस्पताल द्वारा दी गई सलाह या किये गये उपचार/प्रक्रिया का चुनाव रोगी वर्ष हस्यवाल के बींच का विषय है और "कोशिका फाउन्डेशन" द्वारा किसी प्रकार का कोई रकाव नहीं है। इसलिये इस्पताल में रोगी के इलाज सुरक्षा और आने जाने की सारी जिम्मेंद्रमी रोगी एवं इस्पताल की डोपी और "कोशिका" की कोई चूमिका या किम्मेदारी इस मामले में नडी डोगी।

RECOMMENDED FOR ACCEPTENCE स्यीकृती के लिए संस्तृति

Date of Surgery ऑपरेशन की तारीमा

17/04/23

Dr. WAFLANSARI MS (OPHTHAL) (NamReg. NovDMO/93799) हाबटर की नाम व हरताक्षर व राजि

Dr. Shroffs EyerHospital, Aliv

FOR INTERNAL USE of KOSHIKA FOUNDATION

आनारिक उपयोग हेत्

SIGNATURE of TRUSTEE 1

यासी हस्ताक्षर 1

SIGNATURE of TRUSTEE 2

न्यसी इस्ताधर 2